

Q.23. ए तथा बी साझेदार हैं। उन्होंने सी को $\frac{1}{3}$ भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया। भविष्य में ए तथा बी 2 : 1 के अनुपात में लाभ बाँटेंगे। त्याग अनुपात होगा :

A and B are partners. They admit C for $\frac{1}{3}$ rd share. In future the ratio between A and B would be 2 : 1. Sacrificing ratio will be :

(A) 2 : 1

(B) 1 : 1

(C) 5 : 1

(D) 1 : 5

Q.24. नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नकद लाने को कहते हैं (Share of goodwill brought in cash by the new partner is called) :

(A) सम्पत्ति (Asset)

(B) लाभ (Profit)

(C) अधिमूल्य (Premium)

(D) इनमें से कोई नहीं (None of these)

(Bihar, 2015)

- Q. 25. यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि रोकड़ में देता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे: साझेदार का प्रवेश
- (A) ख्याति खाते में (B) नये साझेदार के पूँजी खाते में।
(C) रोकड़ खाते में (D) पुराने साझेदारों के पूँजी खाते में

When a new partner brings his share of goodwill in cash, the amount is debited to:

(A) Goodwill A/c (B) Capital A/c of the new partner
(C) Cash A/c (D) Capital A/cs of the old partners

- Q. 26. जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद में नहीं लाता तो उस राशि को डेबिट करेंगे:

- (A) रोकड़ खाते में (B) प्रीमियम खाते में
(C) नये साझेदार के चालू खाते में (D) पुराने साझेदारों के पूँजी खाते में

When a new partner does not bring his share of goodwill in cash, the amount is debited to :

- (A) Cash A/c (B) Premium A/c
(C) Current A/c of the new partner (D) Capital A/cs of the old partners

- Q. 27. नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है (The amount of goodwill is paid by the new partner) :

- (A) पूँजी के भुगतान के लिए (For the payment of capital)
(B) लाभ में हिस्सा पाने के लिए (For sharing the profit)
(C) सम्पत्तियाँ क्रय करने के लिए (For purchase of assets)
(D) इनमें से कोई नहीं (None of these)

(Bihar, 2017)

- Q. 28. नए साझेदार के प्रवेश के समय, पुराने आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित सामान्य संचय को हस्तांतरित किया जाता है (At the time of admission of a new partner, general reserve appearing in the old Balance Sheet is transferred to) :

- (A) सभी साझेदारों के पूँजी खातों में (All Partner's Capital Accounts)
(B) नये साझेदार के पूँजी खाते में (New Partner's Capital Account)
(C) पुराने साझेदारों के पूँजी खातों में (Old Partner's Capital Accounts)
(D) इनमें से कोई नहीं (None of these)

- Q. 29. यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ-हानि खाते का कोई शेष है तो इसे हस्तांतरित किया जाएगा :

- (A) लाभ-हानि समायोजन खाते में (B) सभी साझेदारों के पूँजी खाते में
(C) पुराने साझेदारों के पूँजी खाते में (D) पुनर्मूल्यांकन खाते में

If, at the time of admission, some profit and loss account balance appears in the books, it will be transferred to :

- (A) Profit & Loss Adjustment Account (B) All partners' Capital Accounts
(C) Old partners' Capital Accounts (D) Revaluation Account

(Bihar, 2017)

- Q. 30. यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय कोई अलिखित दायित्व (Unrecorded Liability) है तो इसे:

- (A) पुनर्मूल्यांकन खाते में डेबिट किया जाएगा
(B) पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट किया जाएगा

- (C) ख्याति खाते में डेबिट किया जाएगा
(D) साझेदारों के पूँजी खातों में क्रेडिट किया जाएगा।

If at the time of admission, there is some unrecorded liability, it will be :

- (A) Debited to Revaluation Account
(B) Credited to Revaluation Account
(C) Debited to Goodwill Account
(D) Credited to partners' Capital Accounts

Q. 31. यदि नया साझेदार ख्याति की रकम नकद लाता है तो उसे बाँटा जाएगा :

- (A) त्याग अनुपात में
(B) पुराने अनुपात में
(C) नए अनुपात में
(D) पूँजी अनुपात में

If the new partner brings his share of goodwill in cash, it will be shared by old partners in :

- (A) Ratio of sacrifice
(B) Old profit sharing ratio
(C) New profit sharing ratio
(D) In Capital ratio (Bihar, 2018)

Q. 32. यदि यह स्पष्ट नहीं होता कि नए साझेदार ने भविष्य का अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से किस अनुपात में लिया है तो यह गर्भित है कि पुराने साझेदार हिस्सा देंगे :

- (A) बराबर
(B) अपनी पूँजी के अनुपात में
(C) अपने पुराने लाभ-विभाजन अनुपात में
(D) लाभ-प्राप्ति अनुपात में

In the absence of an express agreement as to who will contribute to new partners' share of profit, it is implied that the old partners will contribute :

- (A) Equally
(B) In the ratio of their capitals
(C) In their old profit sharing ratio
(D) In the gaining ratio

Q. 33. जब नया साझेदार ख्याति की राशि नकद लाता है तो इसे क्रेडिट किया जाएगा :

- (A) उसके पूँजी खाते में
(B) त्याग करने वाले साझेदारों के पूँजी खातों में
(C) पुराने साझेदारों के पूँजी खातों में
(D) सभी साझेदारों के पूँजी खातों में

When a new partner brings goodwill in Cash, it is credited to :

- (A) His Capital A/c
(B) Sacrificing Partner's Capital A/cs
(C) Old Partner's Capital A/cs
(D) All Partner's Capital A/cs

Q. 34. यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नकद में लाता है तथा ख्याति खाते में पहले से शेष विद्यमान है तो ख्याति को पुराने साझेदारों में अपलिखित किया जाता है :

- (A) नए लाभ विभाजन अनुपात में
(B) पुराने लाभ विभाजन अनुपात में
(C) त्याग अनुपात में
(D) लाभ-प्राप्ति अनुपात में

If the incoming partner brings the amount of goodwill in Cash and also a balance exists in goodwill account, then this goodwill account is written off among the old partners in

- (A) The new profit sharing ratio
(B) The old profit sharing ratio
(C) The sacrificing ratio
(D) The gaining ratio (Bihar, 2017)

Q. 35. नए साझेदार के प्रवेश के समय पुनः मूल्यांकन पर यदि लाभ हो तो इसे क्रेडिट किया जाना चाहिए:

- (A) पुराने साझेदारों के पूँजी खातों में, लाभ विभाजन के अनुपात में
 (B) सभी साझेदारों के पूँजी खातों में, नए अनुपात में
 (C) पुराने साझेदारों के पूँजी खातों में, नए अनुपात में
 (D) पुराने साझेदारों के पूँजी खातों में, त्याग अनुपात में

If, at the time of admission, the revaluation A/c shows a profit, it should be credited to :

- (A) Old partners capital accounts in the old profit sharing ratio.
 (B) All partners capital accounts in the new profit sharing ratio.
 (C) Old partners capital accounts in the new profit sharing ratio.
 (D) Old partners capital accounts in the sacrificing ratio. (Jharkhand, 2017)

Q. 36. पुनर्मूल्यांकन खाता अथवा लाभ-हानि समायोजन खाता है :

Revaluation Account or Profit and Loss Adjustment A/c is a

- (A) वास्तविक खाता (Real Account)
 (B) व्यक्तिगत खाता (Personal Account)
 (C) नाममात्र खाता (Nominal Account)
 (D) सम्पत्ति खाता (Asset Account)

Q. 37. सम्पत्तियों और दायित्वों को उनके पुनःमूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है (Assets and Liabilities are shown at their revalued values in) :

- (A) नये आर्थिक चिट्ठे में (New Balance Sheet)
 (B) पुनर्मूल्यांकन खाते में (Revaluation Account)
 (C) सभी साझेदारों के पूँजी खातों में (All Partner's Capital Accounts)
 (D) वसूली खाते में (Realisation Account) (Bihar, 2017)

Q. 38. किसी नये साझेदार के प्रवेश पर सम्पत्तियों के मूल्य में वृद्धि को डेबिट किया जाएगा (On admission of a new partner, increase in the value of assets will be debited to) :

- (A) पुनर्मूल्यांकन खाता (Revaluation A/c)
 (B) सम्पत्ति खाता (Asset A/c)
 (C) पुराने साझेदारों का खाता (Old Partner's A/c)
 (D) इनमें से कोई नहीं (None of these)

Q. 39. संचित लाभों एवं संचय का हस्तान्तरण किया जाता है:

The accumulated profits and reserve are transferred to :

- (A) साझेदारों के पूँजी खाते में (Partner's Capital A/cs)
 (B) वसूली खाते में (Realisation A/c)
 (C) बैंक खाते में (Bank A/c)
 (D) रोकड़ खाते में (Cash A/c)